



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 572]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 27, 1978/पौष 6, 1900

No. 572]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 27, 1978/PAUSA 6, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि वह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 1978

का० नं० 738 (अ).—26 दिसम्बर, 1978 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा बनाई गई निम्नलिखित अधिसूचना सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित की जाती है :—

राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद् के अनुच्छेद 371 ब के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इसके उपबन्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों का अलावा, उस अनुसूची में विनिर्दिष्ट उपान्तरणों के, यदि कोई हो, तथा निम्नलिखित और उपान्तरणों के अधीन रहते हुए सिक्किम राज्य पर करते हैं, अर्थात् :—

(1) उक्त अधिनियमितियों में किसी ऐसी विधि के प्रति निर्देश का, जो तत्समय सिक्किम राज्य में प्रवृत्त नहीं है, या ऐसे कृत्यकारी के प्रति निर्देश का जो उक्त राज्य में विद्यमान नहीं है, यह धर्ष लगाया जायगा कि उस राज्य में प्रवृत्त किसी तत्स्थानी विधि के प्रति या विद्यमान तत्स्थानी कृत्यकारी के प्रति निर्देश है :

परन्तु यदि यह प्रश्न उठे कि वह तत्स्थानी कृत्यकारी कौन है, या यदि ऐसा कोई तत्स्थानी कृत्यकारी न हो, तो केन्द्रीय सरकार यह विनिश्चय करेगी कि वह कृत्यकारी कौन होगा और केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

(2) प्रत्येक ऐसी अधिनियमिति में उसके प्रारंभ के लिये किसी सुसंगत उपबन्ध में, यदि कोई हो, किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक ऐसी अधिनियमिति के उपबन्ध, सिक्किम राज्य में उस तारीख को प्रवृत्त होंगे जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे :

परन्तु किसी अधिनियमिति के विभिन्न उपबन्धों के लिये और सिक्किम राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के लिये विभिन्न तारीख नियत की जा सकती है और अधिनियम के प्रारम्भ की बाबत ऐसे किसी उपबन्ध के प्रति निर्देश का वह धर्ष लगाया जायगा कि वह उस क्षेत्र में जहाँ वह प्रवृत्त किया गया है, उस उपबन्ध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश है।

अनुसूची

वर्ष	सं०	संक्षिप्त नाम	उपान्तरण
1952	37	चलचित्र अधिनियम, 1952	—
1954	37	आद्य धर्मग्रन्थ निवारण अधिनियम, 1954	—
1956	74	केन्द्रीय विनय कर अधिनियम, 1956	—
1957	14	प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957	—
1958	24	प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्त्वी स्थल और धर्मग्रन्थ अधिनियम, 1958	—
1972	52	पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972	—

(मीलम संजीव रेड्डी)

राष्ट्रपति

[एफ० सं० 11013/7/78-सिक्किम]

एम० एस० कम्पानी, प्रवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 1978

S.O. 738(E).—The following notification made by the President of India on the 26th December, 1978 is published for general information :—

In exercise of the powers conferred by clause (n) of article 371F of the Constitution, the President hereby extends to the State of Sikkim the enactments specified in the Schedule annexed hereto subject to the modifications, if any, specified in that Schedule and the following further modifications, namely :—

(1) Any reference in the said enactments to a law not in force, or to a functionary not in existence, in the State of Sikkim shall be construed as a reference to the corresponding law in force, or to the corresponding functionary in existence, in that State :

Provided that if any question arises as to whom such corresponding functionary is or if there is no such corresponding functionary, the Central Government shall decide as to whom such functionary will be and the decision of the Central Government shall be final.

(2) Notwithstanding anything contained in the relevant provision, if any, of each such enactments for the commencement thereof, the provisions of each such enactments shall come into force in the State of Sikkim on such date as the

Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint :

Provided that different dates may be appointed for different provisions of any enactment and for different areas in the State of Sikkim and any reference in any such provision to the commencement of the Act shall be construed as a reference to the coming into force of that provision in the area where it has been brought into force.

SCHEDULE

Year	No.	Short Title	Modifications
1952	37	The Cinematograph Act, 1952.	—
1954	37	The Prevention of Food Adulteration Act, 1954.	—
1956	74	The Central Sales-Tax Act, 1956.	—
1957	14	The Copyright Act, 1957.	—
1958	24	The Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958.	—
1972	52	The Antiquities and Art Treasures Act, 1972.	—

NEELAM SANJIVA REDDY, President

[F. No. 11013/7/78-SKM]

M. L. KAMPANI, Addl. Secy.